

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 16.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 133 / 18 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 386 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता सियाराम सिंह पुत्र काली प्रसाद सिंह निवासी नीबा होरिल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।



पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 ने बलात्कार के आरोपी को पकड़ा व विवाद को कराया शान्त –

पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 6962 से कालर ने एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 12 मिनट में मौके पर पहुंचा गया तो ज्ञात हुआ कि बलात्कार करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को पकड़ लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी देवव्रत पाण्डेय, हो०चा० बन्धु प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन सीज व 29 वाहनो से 6900 रु० सम्मन

शुल्क वसूल

आज दिनांक 16-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन सीज व 29 वाहनो से 6900 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 11 अभियुक्त गिरफ्तार –

1 – कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



2 - धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

3 - महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



4 - मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 16-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 12 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 43 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।